

THE MAGIC OF THINKING RICH


SEASON 3 DAY – 25

दिनांक - 27/5/2021 समय - शाम 7.30 बजे

यदि आप पूरी तरह निस्वार्थ होकर दुनिया का सहयोग करते हैं,
तो पूरा ब्रह्माण्ड अनंत रूप से आपका सहयोग करता है ।

COACH BSR ने द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के **25**वें दिन दर्शकों का स्वागत करते हुए सत्र की शुरुआत की और इस कार्यशाला के लिए लगातार प्रतिबद्धता के लिए दर्शकों को

धन्यवाद दिया। **COACH BSR** ने साझा किया कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप के समापन के लिए अंतिम तीन दिन शेष हैं। **COACH BSR** ने उन लोगों के एक समूह के बारे में एक कहानी साझा की जो आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। **23** साल के एक लड़के ने सामने से लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने महसूस किया कि आजादी की लड़ाई का नेतृत्व उस जेल से किया जाना चाहिए जहां उन्हें कैद किया गया था। इतनी कम उम्र में उन्होंने आजादी के महत्व को महसूस किया और आजादी की इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी, और वो कहते थे क्रांति लाने के लिए खुद जलना पड़ेगा ... लेकिन आज; लोग अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अपने स्वयं के जीवन की बेहतरी के लिए अपने आलस्य और शिथिलता के खिलाफ विद्रोह करने में सक्षम नहीं हैं। **COACH BSR** ने लोगों से अपने जीवन और राष्ट्र को अच्छे के लिए बदलने के लिए विश्वास की छलांग लगाने को कहा।



COACH BSR ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा की जो कुछ अलग करना चाहता था न कि वह जो उसके आस-पास के सभी लोग कर रहे थे। उसे लगातार कहा जाता था कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। यह शख्स बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, वो थे मिस्टर अब्राहम लिंकन। उन्होंने अपने दिल का अनुसरण किया और लोगों की राय ने कभी भी उस काम को नहीं रोका जो वह करना चाहते थे। **COACH BSR** ने मिस्टर नेल्सन मंडेला के जीवन का एक किस्सा भी साझा किया। **COACH BSR** ने लोगों से अगले 5 से 10 वर्षों में 1000 गुना वृद्धि


के लिए आवश्यक गुणों और विशेषताओं को एक कागज पर लिखने के लिए कहा।

COACH BSR ने श्रीमती की दादी के बारे में एक दिलचस्प कहानी साझा की। सुधा मूर्ति, **84** साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी कैसे सीखी। **COACH BSR** ने अपने जीवन का एक व्यक्तिगत किस्सा साझा किया कि कैसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना आपको अपनी सीमाओं को चुनौती देने और प्रदर्शन के नए मानक स्थापित करने की ताकत देती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की शक्ति को समझाने के लिए **COACH BSR** ने कई अन्य उदाहरण साझा किए। जब तक आप यह नहीं सोचते कि आप सत्ता से बाहर हैं, तब तक आप कभी भी सत्ता से बाहर नहीं होते। **COACH BSR** ने दर्शकों द्वारा साझा किए गए कुछ प्रशंसापत्र पढ़े।

आकर्षण तकनीक के 5 नियम -

❖ फोकस्ड व्हील तकनीक (FOCUSE WHEEL) -

COACH BSR ने तकनीक के बारे में विस्तार से बताया। आपको उस बड़े पहिये में एक बड़ा पहिया और एक छोटा पहिया खींचना है। फिर आपको बड़े पहिये में रेखाएँ खींचनी हैं, बड़े पहिये को **12** खंडों में विभाजित करना है और अपने जीवन में खुश होने के **12** कारण लिखने हैं और सुनिश्चित करें कि पहिया रंगीन और आकर्षक होना चाहिए। छोटे पहिये में आपको वह इच्छा लिखनी है जिसे आप अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। इस तकनीक को समझने के लिए देखें वीडियो।



- ❖ **छठवीं विजय तकनीक** - प्रतिदिन आपको अपने दैनिक जीवन की **5** जीतें अपनी दैनिक पत्रिका में लिखनी हैं। पहले **21** से **45** दिनों के लिए **5** वास्तविक जीत। छठी जीत भविष्य और काल्पनिक होगी जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। यह आपका लक्ष्य हो सकता है। जब आप इस गतिविधि को करते हैं तो आप दिन की **5** वास्तविक जीत और **1** काल्पनिक जीत का उल्लेख कर रहे होते हैं, अब यह अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में मदद करता है कि आपके द्वारा बताई गई सभी **6** जीत वास्तविक हैं और इसलिए **6** काल्पनिक जीत जो

आपका लक्ष्य है प्राप्त होता है, अवचेतन उसे भौतिक वास्तविकता में बदल देता है।

❖ **कार्यक्रम एक वस्तु** - इस गतिविधि में आपको एक इच्छा को जोड़ना होता है जिसे आप एक वस्तु से पूरा करना चाहते हैं जिसका आप अक्सर उपयोग करते हैं। यह आपका मोबाइल फोन, आपकी कलाई घड़ी, आपकी कार की चाबियां और आपका पेन हो सकता है। उस वस्तु को ले लो और उस वस्तु के लिए एक इच्छा कार्यक्रम करो, उस वस्तु के साथ इच्छा को जोड़ो ताकि जब भी आप उस वस्तु को स्पर्श / उपयोग करें, तो आप उस इच्छा से संबंधित हों जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। यह आपको उस वस्तु के निरंतर उपयोग के माध्यम से अपनी इच्छा के साथ लगातार तालमेल बनाए रखने में मदद करेगा।

❖ **थ्री फिंगर/कमांड तकनीक** - इस तकनीक के लिए आपको तीन अंगुलियों को आपस में जोड़ना है और तीन शब्दों को उन

उंगलियों से जोड़ना है। शब्द विस्तार, रिलीज और अवशोषित हैं।

1) विस्तार करें - इस शब्द का उपयोग उन सभी अच्छी चीजों और सकारात्मक विचारों और भावनाओं का विस्तार करने के लिए करें जो आप वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं।

2) रिलीज - इस शब्द का प्रयोग उन सभी दर्द और नकारात्मकता को दूर करने के लिए करें जो आप वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं।

3) अवशोषित - इस शब्द का प्रयोग उन सभी अद्भुत और भव्य अनुभवों को अवशोषित करने के लिए करें जिन्हें आप हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप एक आलीशान रिसॉर्ट में जा रहे हैं और आप उस एहसास को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, और फिर इस कमांड का उपयोग करें। आप इस आदेश का उपयोग कुछ ऐसे गुणों को आत्मसात करने के लिए कर सकते हैं जिनकी आप किसी व्यक्ति में प्रशंसा करते हैं जब आप उन लोगों की संगति में होते हैं।

❖ **मैजिक बाउल तकनीक** - इस तकनीक में आपको एक शीशा लेना होता है और उसमें एक पारदर्शी कांच का कटोरा रखना होता है और उसे अपने प्रार्थना स्थान में रखना होता है। यह एक धन गुणक तकनीक है। उस कांच के कटोरे में आपको काफी मात्रा में पैसा रखना होगा या अपनी इच्छा के अनुसार एक कागज रखना होगा। अब, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हों और कटोरे में पैसे को देखें, तो आप देखेंगे कि दर्पण प्रभाव के कारण आपको दोगुनी राशि दिखाई देगी, याद रखें कांच का कटोरा दर्पण पर रखा जाता है।

मैजिक वॉलेट नामक एक समान तकनीक है। इस तकनीक में आपको हर समय **11000** रुपये का बैलेंस रखना होता है। आपको इस संतुलन को हर हाल में बनाए रखना है। अब, जब भी आपको लगता है कि आपके पास पैसे की कमी है, तो आपका अवचेतन मन जानता है कि आपके बटुए में पर्याप्त पैसा है, इसलिए पर्याप्तता की यह भावना हमेशा आपकी धन की जरूरतों को पूरा करती रहेगी।

YOUTUBE चैनल **COACH BSR** पर इस शक्तिशाली सत्र को
देखें.....

THANK YOU

TEAM BSR